



3, 71, 438

प्रसारण संख्या का निम्न कीर्तिमान रखने वाली
मानव की एकमात्र बाल पत्रिका

सर्वाधिक प्रसारित हिन्दी बाल मासिक देवपुत्र



टन टन टन...

• डॉ. श्री प्रसाद

घंटी- बजी, आ गए बच्चे, कक्षा में सब जाओ रे ।
शुरु पढ़ाई हुई सभी की, देरी कर मत आओ रे ॥
टन टन टन टन टन टन टन !

घंटी बजी, कर रहीं पूजा, ठाकुर जी की दादी रे ।
सबको देती हैं प्रसाद वे, भरकर मुड्डी आधी रे ॥
टन टन टन टन टन टन टन !



घंटी बजी, टिकट ले आओ, आने को है गाड़ी रे ।
सात किलोमीटर चलने पर, आती एक पहाड़ी रे ॥
टन टन टन टन टन टन टन !



घंटी बजी जोर से, बच्चे खेल-खेल में भागे रे ।
देखें कौन दौड़ में रहता, इनमें सबसे आगे रे ॥
टन टन टन टन टन टन टन !

घंटी बजी, बैलगाड़ी की, बैल हिलाते गरदन रे ।
बँधी गले में सुन्दर घंटी, सुनकर खुश होता मन रे ॥
टन टन टन टन टन टन टन !



छोटी घंटी, बड़ी घंटियाँ, दफ्तर में हैं घंटी रे ।
चली साइकिल, बजती घंटी, बजा रहा है बंटी रे ॥
टन टन टन टन टन टन टन !